

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-12/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिका नारायणपुर, जिला-नारायणपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. नारायणपुर नगर पालिका को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	नयापारा वार्ड
2	डी.एन.के. वार्ड
3	तहसीलपारा वार्ड
4	बंगलापारा वार्ड
5	सिंगोड़ीतराई वार्ड
6	बाजारपारा वार्ड
7	बखरूपारा वार्ड
8	महावीर मंदिर वार्ड
9	जगदीश मंदिर वार्ड
10	मुरियापारा वार्ड
11	आश्रम वार्ड
12	माड़िन देवी वार्ड
13	कुम्हारपारा वार्ड
14	साकरीबेड़ा वार्ड
15	डूमरतराई वार्ड

नारायणपुर नगर पालिका के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक – 01 नयापारा वार्ड

उत्तर
पूर्व
दक्षिण
पश्चिम

- नया बस स्टैण्ड से सुभरन के खेत ख.नं. 5 तक
- नया बस स्टैण्ड से पंकज बैरागी के काम्पलेक्स तक (रोड सहित)
- पंकज बैरागी के काम्पलेक्स से कलेक्ट्रेड रोड होते हुए खसरा न. 02 ग्राम सुलेंगा की सीमा तक (रोड सहित)
- ख.नं.- 05 से ख.नं. 2/2 तक

वार्ड क्रमांक – 02 डी. एन. के. वार्ड

उत्तर
पूर्व
दक्षिण
पश्चिम

- फारेस्ट क्वाटर (मांझीपारा) से पी.एच.ई. कार्यालय तक
- फारेस्ट क्वाटर मांझीपारा से जयस्तंभ चौक होते हुए चौदनी चौक तक
- चौदनी चौक से खसरा न. 1160 (माहका सरहद) तक रोड सहित
- ख.नं.-1160 से पी.एच.ई. कार्यालय तक

वार्ड क्रमांक – 03 तहसीलपारा वार्ड

उत्तर
पूर्व
दक्षिण
पश्चिम

- जयस्तंभ चौक से मधुसुदन ढाली के मकान तक (रोड सहित)
- मधुसुदन ढाली के मकान से मांतगी बाड़ा तक (रोड सहित)
- मांतगी बाड़ा से राजीव चौक होते हुए योगेन्द्र सोनी के दुकान से चौदनी चौक तक
- चौदनी चौक से जयस्तंभ चौक तक (रोड सहित)

वार्ड क्रमांक – 04 बंगलापारा वार्ड

उत्तर
पूर्व
दक्षिण
पश्चिम

- खसरा न. 151 से महिला आई टी आई होते हुए अंबेडकर सामाजिक भवन तक
- खसरा न. 439 से वेयर हाऊस को शामिल करते हुए ख.नं.151 तक
- जयस्तंभ चौक से खसरा न. 439 तक
- अंबेडकर सामाजिक भवन से जयस्तंभ चौक तक (रोड सहित)

वार्ड क्रमांक – 05 सिंगोड़ीतराई वार्ड

उत्तर
पूर्व
दक्षिण
पश्चिम

- खसरा नं. 63 से ख.नं.57 तक
- खसरा नं. 63 से ख.नं.112 तक
- खसरा न. 112 से ज्ञान ज्योति शाला तथा डीएफओ कार्यालय होते हुए मार्केटिंग सोसाइटी तक
- मार्केटिंग सोसायटी से ग्राम करलखा की सीमा (खसरा न. 57) तक

वार्ड क्रमांक - 06 बाजारपारा वार्ड

- उत्तर - खसरा न. 152 से बंधवा तालाब तक
 पूर्व - ख.नं. 152 से हरे राम मिश्रा के घर तक
 दक्षिण - बंधुवा तालाब से नगरपालिका शॉपिंग काम्पलेक्स और नरेश अग्रवाल के
 दुकान को शामिल करते हुए हरeram मिश्रा के घर तक
 पश्चिम - बंधुवा तालाब की पश्चिमी सीमा

वार्ड क्रमांक - 07 बखरूपारा वार्ड

- उत्तर - एडका चौक से सुनील जयसवाल के दुकान को शामिल करते हुए पटेल
 वर्कशॉप तक
 पूर्व - एडका चौक से कुकुर नदी तक
 दक्षिण - कुकुर नदी
 पश्चिम - पटेल वर्कशॉप से माता तराई की पूर्वी सीमा होते हुए कुकुर नदी तक

वार्ड क्रमांक - 08 महावीर मंदिर वार्ड

- उत्तर - राजीव चौक (गुप्ता हॉटल) से शिव कुमार पांडे के मकान तक
 पूर्व - शिव कुमार पांडे के मकान से माता तराई तक
 दक्षिण - माता तराई से जीवनाथ पात्र के मकान तक
 पश्चिम - जीवनाथ पात्र के मकान से बुधवारी बाजार होते हुए राजीव चौक तक

वार्ड क्रमांक - 09 जगदीश मंदिर वार्ड

- उत्तर - राजीव चौक से धरमचंद जैन किराना (सोनपुर रोड) तक
 पूर्व - राजीव चौक से श्री राम किराना (बुधवारी बाजार) तक
 दक्षिण - श्री राम किराना से जोशी बाडा चौक तक
 पश्चिम - जोशी बाडा चौक से धरमचंद जैन किराना तक

वार्ड क्रमांक - 10 मुरियापारा वार्ड

- उत्तर - चमरू पात्र के खेत (खसरा न.1148/2) से किशोर पटेल मिल तक
 पूर्व - किशोर पटेल मिल से जोशी बाडा चौक होते हुए प्रेम सागर के मकान
 तक
 दक्षिण - प्रेम सागर के मकान से गैस गोदाम तक
 पश्चिम - गैस गोदाम से खसरा न. 1148/2 तक

वार्ड क्रमांक - 11 आश्रम वार्ड

- उत्तर - खसरा न. 1163 सोनपुर रोड (माहका सरहद) से अबुझमाडिया सामाजिक
 भवन तक
 पूर्व - अबुझमाडिया सामाजिक भवन से कुसुमतराई होते हुए कुकुर नदी तक
 दक्षिण - कुकुर नदी
 पश्चिम - कुकुर नदी से ख.नं. 1163 तक

वार्ड क्रमांक – 12 माड़िनदेवी वार्ड

- उत्तर – जोशी बाड़ा चौक से पुराना ग्राम पंचायत भवन (बुधवारी बाजार) तक
 पूर्व – पुराना ग्राम पंचायत भवन (बुधवारी बाजार) से फगनी बाई पुजारी के मकान तक
 दक्षिण – फगनी बाई पुजारी के मकान से खगेश्वर पात्र का मकान शामिल करते हुए नाच मंडली चौक तक
 पश्चिम – नाच मंडली चौक से जोशी बाड़ा तक

वार्ड क्रमांक – 13 कुम्हारपारा वार्ड

- उत्तर – सीता बाई का खेत खसरा नं.1120 से मोहम्मद नाजीर के मकान से नाच मंडली चौक होते हुए आनंद पात्र के मकान तक
 पूर्व – माता तराई की दक्षिण सीमा से कुकुर नदी तक
 दक्षिण – घनश्याम भोयर के मकान से पुसबती पात्र के मकान पहाड़ी मंदिर रोड हुए कुकुर नदी तक
 पश्चिम – घनश्याम भोयर के मकान से सीता बाई का खेत खसरा नं.1120 तक

वार्ड क्रमांक – 14 साकरीबेड़ा वार्ड

- उत्तर – महेश प्रधान के मकान से कचरू पांडे के दुकान तक
 पूर्व – कचरू पांडे के दुकान से कुकुर नदी को पार कर बाकुलवाही रोड होते हुए ग्राम बाकुलवाही की सरहद (खसरा नं.1620) तक
 दक्षिण – धरमू के खेत खसरा नं.1620 से कसावही सरहद खसरा नं. 1269 तक
 पश्चिम – ख.नं.1267 से कुकुर नदी तक

वार्ड क्रमांक – 15 डूमरतराई वार्ड

- उत्तर – कुकुर नदी ख.नं.1888 से कुम्हली सरहद (ख.नं.2359) तक
 पूर्व – ख.नं.2359 से बाकुलवाही सरहद (ख.नं.1785) तक
 दक्षिण – ख.नं.1785 से ख.नं. 1733 तक
 पश्चिम – कुकुर नदी पुलिया से बाकुलवाही रोड होते हुए बाकुलवाही की सीमा तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ-1-12/2019/18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-12/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F 1-12/2019/18 In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Municipal council Narayanpur, Distt. Narayanpur as per schedule given Below :-

1. Divides Municipal council Narayanpur into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	NAYAPARA WARD
2	D.N.K. WARD
3	TAHSEELPARA WARD
4	BANGLA PARA WARD
5	SINGODITARAI WARD
6	BAJARPARA WARD
7	BAKHRUPARA WARD
8	MAHAVIR MANDIR WARD
9	JAGDISH MANDIR WARD
10	MURIYAPARA WARD
11	AASHRAM WARD
12	MADINDEVI WARD
13	KUMHARPARA WARD
14	SAKRIBEDA WARD
15	DUMARTARAI WARD

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Palika Narayanpur**WARD NO – 01 NAYAPARA**

- North – From New Bus stand to the of Subhran farm (khasara no. 05).
- East - From New Bus Stand to Pankaj Bairagi Complex (Including Road)
- South – From Pankaj Bairagi Complex towards collectorate Road to Khasara No. 02 Sulenga Boundary.
- West – From Khasra No. 05 to Khasra No. 02/02.

WARD NO. 02 D.N.K. WARD

- North – From Forest Quarter (Manjhi Para) to P.H.E office.
- East – From Forest Quarter (Manjhi Para) towards Jaistambh Chowk to Chandani Chowk.
- south – From Chandani Chowk to Khasra No.1160 Mahaka Boundary.
- West – From khasra No. 1160 to P.H.E Office

WARD NO. 03 TAHSEEL PARA WARD

- North – From Jaistambh Chowk to the house of Madhusudan Dholli Including road).
- East – From the house of Madhusudan Dholli to Matangi Bada Including road).
- south – From Matangi Bada towards Rajiv Chowk to Chandni Chowk.
- West – From Chandani Chowk to Jaistambh Chowk Including road).

WARD NO. 04 BANGLAPARA WARD

- North – From Khasra No. 151 towards Girls I.T.I to Ambedkar community Building
- East – From Khasra No.439 towards Ware House to Khasra No. 151.
- south – From Jaistambh Chowk To Khasra No. 439
- West – From Ambedkar Community Building to Jaistambh Chowk

WARD NO. 05 SINGODITARAI WARD

- North – From Khasra No. 63 To Khasra No. 57
- East – From Khasra No.63 to Khasra No. 112
- south – From Khasra No. 112 towards Gyanjyoti School and D.F.O. Office To Marketing society
- West – From Marketing society to Karlakha Boundary Khasra No. 57.

WARD NO. 06 BAJARPARA WARD

- North – From Khasra No. 152 To Bandhwa Talab.
 East – From Khasra No. 152 to The House Of Hareram Mishra
 south – From Bandhwa Talab toward Nagarpalika Shopping complex
 and Agrawal Fancy Store to the house of Hareram Mishra.
 West – Western Boundary of Bandhwa Talab.

WARD NO. 07 BAKHRUPARA WARD

- North – From Edka chowk towards Sunil Jaiswal Shop to Patel
 workshop.
 East – From Edka chowk to Kukur River.
 south – Kukur River
 West – From Patel Work Shop towards Eastern Boundary of Mata
 Tarai to Kukur River.

WARD NO. 08 MAHAVIR MANDIR WARD

- North – From Rajiv chowk (Gupta Hotel) to the House of Shiv
 Kumar Pandey.
 East – From the House of Shivkumar Pandey to Mata Tarai.
 south – From Mata Tarai to the House of Jivnath Patra.
 West – From Jivnath Patra's House towards Budhwari Market to
 Rajiv Chowk.

WARD NO. 09 JAGDISH MANDIR WARD

- North – From Rajiv chowk to Dharamchand Jain Kirana Store
 (Sonpur Road)
 East – From Rajiv Chowk to Shri Ram kirana Store (Budhwari
 Bazar)
 south – From Shri Ram kirana Store to Joshi bada chowk
 West – From Joshibada chowk to Dharamchand Jain kirana store

WARD NO. 10 MURIYAPARA WARD

- North – From Chamru Patra's farm (Khasara No. 1148/2) towards
 Municiple Council Office to Kishor Patel Mill.
 East – From Kishor Patel Mill towards Joshibada chowk to the
 house of Prem Sagar.
 south – From Prem Sagar's house to H.P. Gas Godown.
 West – From Gas Godown to Khasra No. 1148/2.

WARD NO. 11 AASHRAM WARD

- North – From Khasara No.1163 Sonpur Road (Mahaka Boundary) to Abujhmadiya community Building.
East – From Abujhmadiya Community Building towards Kusum Tarai to Kukur River
south – Kukur River
West – From Kukur River to Khasara No. 1163

WARD NO. 12 MADINDEVI WARD

- North – From Jhoshi Bada Chowk to old Gram Panchayat building (Budhwari Bazar)
East – From old Gram Panchayat building to Fagni Bai Pujari's house
south – From Fagni Bai Pujhari's House toward Khageshwer Patra's house to Nach Mandli chowk.
West – From Nach Mandli chowk to Joshi Bada Chowk.

WARD NO. 13 KUMHARPARA WARD

- North – From Sitabai's farm (Khasra No.1120) towards Md. Najir's House to Nach Mandli chowk to Aanand Patra's house
East – From Mata Tarai Boundary to Kukur River.
south – From Ghansyam Bhojar's house towards Pushbati Patra's house(Pahadi mandir Road) to Kukur River.
West – From Ghansyam Bhojar's house to Sitabai's farm (Khasara No.1120)

WARD NO. 14 SAKRIBEDA WARD

- North – From Mahesh Pradhan house to Kachru Pandey Kirana shop
East – From Kachru Pandey shop towards Kukur nadi to Bakulwahi Boundary (Khasra No.1620)
south – From Dharmu's farm (Khasra No.1620) to Kasawahi Boundary Khasra no. 1269.
West – From Khasra No. 1267 to Kukur River

WARD NO. 15 DUMARTARAI WARD

- North – From Kukur River Khasara No.1888 to kumhli boundary(Khasra No.2359)
East – From Khasra No.2359 to Bakulwahi Boundary Khasra no. 1785
south – From Khasra No.1785 to Khasra No. 1733
West – From Kukur River Bridge Bakulwahi Road to Bakulwahi Boundary.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.